

AU-2218

**M.A. (Part-II) Examination**  
**ECONOMICS**  
**(Economic of Insurance)**  
**Paper—X**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

**N.B. :—** (1) Attempt all **FIVE** questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. What is General Insurance ? Explain how the risk is transferred by insurance companies ?

**OR**

Define private and social insurance in economic development. Discuss the business and social advantages of insurance.

2. (a) What is meant by pure risk ?  
(b) Explain the types of re-insurance distribution.  
(c) State the role of insurance institutions in the Indian Capital Market.  
(d) What are the elements of risk management ?

**OR**

- (e) How moral hazards are related with insurance demand ?  
(f) What is meant by speculative risk ?  
(g) Explain objectives of IRDA.  
(h) Explain the advantages of re-insurance.
3. (a) State the legal aspects of life insurance.  
(b) Explain the advantages of group insurance schemes.  
(c) What are the objectives of annuity ?  
(d) Explain the fundamental principles of life insurance.

**OR**

- (e) State the important functions of life insurance companies.
  - (f) Explain the classification of risks.
  - (g) Distinguish between surrender value and paid-up value.
  - (h) What are the advantages of personal health insurance ?
4. Define general insurance and discuss the main conditions of fire insurance scheme.

**OR**

Explain the marketing of general insurance. How is selection and rating done for various risks of general insurance ?

5. (a) What is meant by life cycle planning ?
- (b) Explain the features of pension plans.
- (c) What is the purpose of government intervention in insurance markets ?
- (d) Explain the process and technique of estate planning.

**OR**

- (e) Explain the theory of insurance regulation in India.
- (f) Explain the functions of IRDA.
- (g) What are the various aspects in purchase of insurance ?
- (h) How far pension plans in India help the investing for retirement ?

AU-2218

**M.A. (Part-II) Examination**  
**ECONOMICS**  
**(Economic of Insurance)**  
**Paper—X**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व पाचही प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. सामान्य विमा म्हणजे काय ? विमा कंपन्या जोखमीचे हस्तांतरण कसे करतात ते स्पष्ट करा.

किंवा

आर्थिक विकासात खाजगी व सामाजिक विमा म्हणजे काय ? विम्याचे व्यावसायिक व सामाजिक फायद्याची चर्चा करा.

2. (अ) शुद्ध जोखीम म्हणजे काय ?

(ब) पुनर्विमा वितरण पद्धतीचे प्रकार स्पष्ट करा.

(क) भारतीय भांडवल बाजारात विमा संस्थांची भूमिका स्पष्ट करा.

(ड) जोखीम व्यवस्थापनाचे घटक कोणते आहेत ?

किंवा

(इ) नैतिक धोके हे विम्याच्या मागणीशी कसे संबंधित असतात ?

(फ) परिकल्पनिक जोखीम म्हणजे काय ?

(ग) आय. आर. डी. ए. ची उद्दिष्टे स्पष्ट करा.

(ह) पुनर्विम्याचे फायदे स्पष्ट करा.

3. (अ) जीवन विम्याची वैधानिक बाजू स्पष्ट करा.

(ब) समूह विमा योजनेचे फायदे स्पष्ट करा.

(क) वार्षिकी घेण्याची कोणती उद्दिष्टे आहे ?

(ड) आयुर्विम्याचे मूलभूत तत्वे स्पष्ट करा.

किंवा

- (इ) आयुर्विमा कंपन्याची महत्वाची कार्ये सांगा.
  - (फ) जोखीमचे वर्गीकरण स्पष्ट करा.
  - (ग) समर्पणमूल्य व हप्ताबंदमूल्य यातील फरक स्पष्ट करा.
  - (ह) वैयक्तिक आरोग्य विम्याचे कोणते लाभ आहेत ?
4. सर्वसामान्य विम्याची व्याख्या लिहा. अग्नीविमा पत्राच्या मुख्य अटीची चर्चा करा.

किंवा

सामान्य विम्याचे विपणन स्पष्ट करा. सामान्य विम्यासाठी विविध जोखिमेची निवड व श्रेणीयन कसे केले जाते ?

5. (अ) जीवनचक्र नियोजन म्हणजे काय ?
- (ब) पेन्शन योजनेची लक्षणे स्पष्ट करा.
- (क) विमा बाजारात सरकारी हस्तपेक्षाचा हेतू कोणता आहे ?
- (ड) संपत्ती नियोजनाची प्रक्रिया व तंत्र स्पष्ट करा.

किंवा

- (इ) भारतातील विमा नियमनाचा सिद्धांत स्पष्ट करा.
- (फ) आय. आर. डी. ए. चे कार्ये स्पष्ट करा.
- (ग) विमा खरेदीचे विविध पैलू कोणते आहेत ?
- (ह) भारतातील पेन्शन योजना सेवानिवृत्ती गुंतवणूकीला कितपत मदत करतात ?

AU-2218

**M.A. (Part-II) Examination**  
**ECONOMICS**  
**(Economic of Insurance)**  
**Paper—X**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी पाँच प्रश्न हल कीजिये।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. सामान्य बीमा क्या है ? बीमा कंपनियाँ जोखिम का हस्तांतरण कैसे करते हैं ? स्पष्ट कीजिये।

अथवा

आर्थिक विकास में निजी और सामाजिक बीमा क्या है ? बीमा के व्यावसायिक और सामाजिक लाभों की चर्चा कीजिये।

2. (अ) शुद्ध जोखिम क्या है ?

(ब) पुनर्बीमा वितरण पद्धति के प्रकार स्पष्ट कीजिये।

(क) भारतीय पूंजी बाजार में बीमा संस्था की भूमिका स्पष्ट कीजिये।

(ड) जोखिम व्यवस्थापन के घटक कौनसे हैं ?

अथवा

(इ) नैतिक धोखे यह बीमा के माँग से कैसे संबंधित है ?

(फ) परिकल्पनिक जोखिम क्या है ?

(ग) आई. आर. डी. ए. के उद्देश्य स्पष्ट कीजिये।

(ह) पुनर्बीमा के लाभ स्पष्ट कीजिये।

3. (अ) जीवन बीमा की वैधानिक बाजू स्पष्ट कीजिये।

(ब) समूह बीमा योजना के लाभ स्पष्ट कीजिये।

(क) वार्षिकी लेने के कौनसे उद्देश्य हैं ?

(ड) जीवन बीमा के मूलभूत तत्व स्पष्ट कीजिये।

अथवा

- (इ) जीवन बीमा कंपनियों के महत्वपूर्ण कार्य बताइये।
  - (फ) जोखिम का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिये।
  - (ग) समर्पणमूल्य और हफ्ताबंदमूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिये।
  - (ह) वैयक्तिक आरोग्य बीमा के कौनसे लाभ हैं ?
4. सर्वसामान्य बीमा की व्याख्या लिखिये। अग्नि बीमा पत्र की प्रमुख शर्तों की चर्चा कीजिये।

अथवा

सामान्य बीमा का विपणन स्पष्ट कीजिये। सामान्य बीमा के लिये विभिन्न जोखिम का चयन तथा श्रेणीयन कैसे किया जाता है ?

5. (अ) जीवनचक्र नियोजन क्या है ?
- (ब) पेन्शन योजना के लक्षणों को स्पष्ट कीजिये।
  - (क) बीमा बाजार में सरकार के हस्तक्षेप का हेतु कौनसा है ?
  - (ड) संपत्ति नियोजन की प्रक्रिया और तंत्र स्पष्ट कीजिये।

अथवा

- (इ) भारत में बीमा नियमन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिये।
- (फ) आई. आर. डी. ए. के कार्य स्पष्ट कीजिये।
- (ग) बीमा क्रय के विभिन्न पैहलू कौनसे हैं ?
- (ह) भारत की पेन्शन योजना सेवानिवृत्ति की गुंतवणूक को कहां तक मदद करती है ?